



भारतीय विद्यालय डारसेट

हिंदी कार्यपत्रिका

आदमीनामा - प्रश्नोत्तर

तैयार किया गया : श्रीमती बीना स्टीफन

दिनांक : _____ छात्र /छात्रा का नाम : _____

कक्षा : IX "ब"

1.	अलग-अलग तरह के भोजन प्राप्त करने वाले भिन्न-भिन्न लोग कौन हैं ?	
3.	अलग-अलग तरह के भोजन प्राप्त करने वाले आदमी ही हैं । स्वादिष्ट भोजन आदमी को मिलता है तो रूखा-सूखा चबाने वाला भी आदमी ही है ।	
2.	इस दुनिया में किस-किस तरह के आदमी हैं ?	
3.	इस दुनिया में तरह-तरह के आदमी हैं । कोई रक्षक है, कोई हत्यारा है, कोई करुणावान है, कोई सहयोगी है । सच बात यह है कि आदमी भिन्न नहीं है, बल्कि उसकी भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ उसे भिन्न-भिन्न भूमिकाओं में खड़ा कर देती हैं ।	
3.	'आदमीनामा' शीर्षक कविता के अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है ?	
3.	'आदमीनामा' शीर्षक कविता के अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति यह धारणा बनती है कि इस दुनिया में भिन्न-भिन्न स्वभाव के आदमी मिलते हैं । कुछ आदमी बहुत अच्छे हैं तो कुछ हृद दर्जे के कमीने हैं । कुछ आदमी संत-फकीर स्वभाव के होते हैं तो कुछ घोर-स्वार्थी, चोर और हत्यारे तक होते हैं । सभी आदमी एक समान नहीं होते ।	
4.	आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए ।	
3.	आदमी की प्रवृत्तियाँ अनेक प्रकार की हैं - -आदमी अपने स्वभाव के अनुसार बर्ताव करता है । -आदमी को कहीं सुख मिलता है, तो कहीं दुख भोगना पड़ता है । -कई आदमी शरीफ होते हैं तो कई कमीने स्वभाव के होते हैं । -आदमी के अंदर ही आदमीयत और हैवानियत दोनों रूप छिपे होते हैं । -आदमी दूसरे की मदद को भी तैयार रहता है ।	

